



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2012 (पौष 1, 1934)

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2012 (PAUSA 1, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. आरएस 42/9/2012/118-कार्मिक--राज्य सभा सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी (तदर्थ), श्री गुरविन्दर सिंह गुलेरिया को 20 नवम्बर 2012 के पूर्वाह्न से माननीय संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रतिनियुक्ति और सहपदावसान आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 तथा 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

योजना आयोग

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. ए-19012/61/12-यूआईडीएआई--भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 05.09.2012 के पत्र सं. ए-12013/21

(अनुभाग अधिकारी/मुख्यालय) 11-यूआईडीएआई और रक्षा मंत्रालय, संयुक्त सचिव (टी) एवं सीएओ, नई दिल्ली के दिनांक 30.11.2012 के पत्र सं. ए/59933/एससी/जीएस/आईएनएफ/सीएओ/ए-5(बी) के अनुसरण में श्री प्रशान्त एम ने दिनांक 30.11.2012 (पूर्वाह्न) से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय), दिल्ली में 9,300--34,800/- रु. के वेतन बैंड + 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन में तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

अरूण कुमार सरकार, उप-निदेशक (स्था.)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2012

सं. ए-12025/08/2010-प्रशा.1 (वि.का.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री महेन्द्र खंडेलवाल, उप विधि अधिकारी को दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-4 (रु. 37,400--67,000/-) में ग्रेड वेतन रु. 8,700/- सहित अपर सरकारी अधिवक्ता के पद

(भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता संवर्ग का ग्रेड-II) पर नियुक्त करते हैं।

2. अपर सरकारी अधिवक्ता के पद पर श्री महेन्द्र खंडेलवाल की यह नियुक्ति अंतिम है और यह माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम पीठ के समक्ष लंबित ओ.ए.सं. 454/2012 और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओ.ए. सं. 2023/2012 के अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

गणेशदत्त शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2012

सं. ए-32014/5/2010-प्रशा. IV (वि.का.) खंड-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II(ए) के तहत जोनिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड की वर्ष 2010 की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने पर, निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों (तदर्थ निजी सचिव के तौर पर कार्यरत), को उनके नामों के समक्ष दर्शाई गई तारीख से वेतन बैंड-2, रु. 9,300--34,800/- में रु. 4,800/- ग्रेड वेतन सहित नियमित आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	सीएस एल सं.	वर्तमान में जिस संवर्ग में कार्यरत हैं	इस विभाग में कार्य ग्रहण करने की तारीख
सर्वश्री				
1.	पी. उप्पील्लि श्रीनिवासन	277	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (आईपीएबी में प्रतिनियुक्त पर)	01.10.2012
2.	सुश्री महालक्ष्मी गोपालकृष्णन	318	राजस्व	22.10.2012
3.	श्री एम.एस. पाल	617	जल संसाधन (सीडब्ल्यूसी)	19.10.2012

आशा सोटा, अवर सचिव

दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा. IV (वि.का.) खंड-II--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.10.2012 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस-II(ए) पार्ट के अनुसरण में निम्नलिखित अधिकारियों की विधि और न्याय मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में नियमित रिक्ति के स्थान पर प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उनकी नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्ति होने की तारीख अर्थात् दिनांक 15.11.2012 तक बढ़ाते हैं:-

क्र. सं.	नाम	तैनाती का वर्तमान स्थान	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का का.ज्ञा. दिनांक	कार्य ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
सर्व श्री				
1.	अनूप सेठ	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग	30.05.2011	05.07.2011

1	2	3	4	5
2.	आनंदरमण एस.	विधि कार्य विभाग, विधि आयोग	25.10.2011	02.11.2011
3.	आनंद कुमार	विधि कार्य विभाग	25.10.2011	29.12.2011 (अपराह)

2. उक्त तदर्थ नियुक्ति से वे प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित प्रोन्नति का कोई दावा नहीं कर सकेंगे और न ही तदर्थ आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा की गणना ग्रेड में उनकी वरिष्ठता या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु की जाएगी।

आशा सोटा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. 1-18011/04/2012-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुश्री सराह अफजल अहमद रिजवी, भा.पु.से. (गुजरात : 2008) को दिनांक 28.08.2011 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2012

सं. 44-22/2012-एनडीएम-IV/II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2012 के पत्र सं. 6/33/2012-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में, श्री सत्यजीत राजन, आईएसएस (केएल : 87) को दिनांक 15.11.2012 के पूर्वाह्न से दिनांक 17.09.2013 तक की अवधि या अगले आदेश, इनमें से जो भी पहले हो, तक 37,400--67,000/- रु. (पीबी-4) के वेतनमान तथा 10,000/- रु. के ग्रेड पे में पार्ष्विक अन्तरण (लैट्रल शिफ्ट) आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त किया गया है।

आशीष कुमार पांडा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. 14016/21/2011-यू.टी.एस.-II--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा (दानिक्स) के चयन ग्रेड अधिकारी श्री संजीव आहुजा को दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा नियम, 2003 के नियम 7 के उप-नियम 3 और 4 (क) के अनुसार दिनांक 01.07.2004 अर्थात् उक्त ग्रेड में उनके एकदम कनिष्ठ की नियुक्ति की तारीख से 12,000--16,500/- रु. (पूर्व-संशोधित) और 15,600--39,100/- रु.

(ग्रेड पे 7,600/- रु.) (संशोधित) के वेतनमान में सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II में नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति के पश्चात् उनका नाम गृह मंत्रालय की दिनांक 29 फरवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 14016/21/2011-यूटीएस-II में श्री यशपाल गर्ग (क्रम सं. 09) के नीचे तथा श्री पी.के. पंडा (क्रम सं. 10) के ऊपर क्रम सं. 9क पर होगा।

ए.के. दास, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. आई-14011/17/2012-आइपीएस-1(I)--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 04.12.2012 को चयन समिति की दिनांक 19.10.2012 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2001 से 2009 तक की उन चयन सूचियों को रूपांतर के साथ अनुमोदित कर दिया है जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब संवर्ग में 8,2,2,0,0,2,0,1 एवं 3 कुल 18 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु पंजाब पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

#### चयन सूची-2001

क्र. सं. नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
1. बलकार सिंह सिद्धु	07.03.1961
2. गुरिन्दर सिंह ढिल्लान	05.05.1964
3. मोहनीश चावला	01.05.1965
4. सुरिन्दर पाल सिंह परमार	04.09.1966
5. अमर सिंह चहल	22.12.1959
6. जतिन्दर सिंह औलख	04.01.1963
7. मुखविन्दर सिंह चीना	26.12.1963
8*. परमदीप सिंह संधू	22.02.1964

\*क्रम सं. 8 पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#### चयन सूची-2002

क्र. सं. नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
OA#*. परमदीप सिंह संधू	22.02.1964
1. जसकरण सिंह	15.04.1964
2. युरिन्दर सिंह	04.10.1961

# क्रम संख्या OA पर दिये गये नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. OA पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#### चयन सूची-2003

क्र. सं. नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
1. राजिन्दर सिंह	26.03.1958
1A#*. परमदीप सिंह संधू	22.02.1964
2. अरूण कुमार मित्तल	16.06.1962

# क्रम संख्या 1A पर दिये गये नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. 1A पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#### चयन सूची-2006

क्र. सं. नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
OA#*. परमदीप सिंह संधू	22.02.1964
1. गुरशरण सिंह	01.08.1964
2. कंवर बहादुर सिंह	01.09.1960

# क्रम संख्या OA पर दिये गये नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. OA पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

#### चयन सूची-2008

क्र. सं. नाम	जन्म तिथि
सर्व/श्री	
OA#*. परमदीप सिंह संधू	22.02.1964
1. सुरिन्द कुमार कालिया	28.12.1961

# क्रम संख्या OA पर दिये गये नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. 0A पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

## चयन सूची-2009

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्व/श्री	
OA#*	परमदीप सिंह संधू	22.02.1964
1.	रनबीर सिंह खत्रा	16.03.1961
2.	तुलसी राम	18.03.1958
3.	सुखदेव सिंह भट्टी	09.10.1956

# क्रम संख्या 0A पर दिये गये नाम को भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 5(5) के द्वितीय उपबंध के अंतर्गत शामिल किया गया है।

\*क्रम सं. 0A पर दिये गये नाम को उनके विरुद्ध लंबित अपराधिक मामले के निपटान के अध्यक्षीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

2. उपर्युक्त चयन सूचियां श्री लोकनाथ आंगरा एवं अन्य एवं बैच द्वारा दायर एस.एल.पी. (सी.) सं. 36313/2009, के परिणाम के अध्यक्षीन होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

सं. आई-14011/17/2012-आईपीएस-1(II)--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पंजाब प्रदेश संवर्ग प्रदान करते हैं :-

## चयन सूची-2001

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3
	सर्व/श्री	
1.	बलकार सिंह सिद्ध	07.03.1961
2.	गुरिन्दर सिंह डिल्लन	05.05.1964
3.	मोहनीश चावला	01.05.1965
4.	सुरिन्दर पाल सिंह परमार	04.09.1966

1	2	3
5.	अमर सिंह चहल	22.12.1959
6.	जतिन्दर सिंह औलख	04.01.1963
7.	मुखविन्दर सिंह चीना	26.12.1963

## चयन सूची-2002

1.	जसकरण सिंह	15.04.1964
2.	युरिन्दर सिंह	04.10.1961

## चयन सूची-2003

1.	राजिन्दर सिंह	26.03.1958
2.	अरूण कुमार मित्तल	16.06.1962

## चयन सूची-2006

1.	गुरशरण सिंह	01.08.1964
2.	कंवर बहादुर सिंह	01.09.1960

## चयन सूची-2008

सुरिन्दर कुमार कालिया	28.12.1961
-----------------------	------------

## चयन सूची-2009

1.	रनबीर सिंह खत्रा	16.03.1961
2.	तुलसी राम	18.03.1958
3.	सुखदेव सिंह भट्टी	09.10.1956

2. उपर्युक्त नियुक्तियां श्री लोकनाथ आंगरा एवं अन्य एवं बैच द्वारा दायर एस.एल.पी.(सी.) संख्या 36313/2009, के परिणाम के अध्यक्षीन होंगी।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

हरीश चन्द्र राय, अवर सचिव

## (आपदा प्रबंधन प्रभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. 47-8/2010-डीएम-III खण्ड II--राष्ट्रपति, श्री सुदीप सिंह जैन को गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (एनसीआरएमपी) की परियोजना प्रबंधन यूनिट में दिनांक 09.11.2012 से तीन वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 08.11.2015 अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- रु. (पीबी-4) के वेतनमान तथा 8,700/- रु. के ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

संजय अग्रवाल, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. 19011/08/2012-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस. I(यू) दिनांक 16 नवम्बर, 2012 के अनुसार अवर सचिव (ग्रेड-1) के पद पर तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री कैलाश चन्द्र (सीएसएल सं. 7552) को दिनांक 05.11.2012 के पूर्वाह्न से 6,600/- रु. ग्रेड पे सहित 15,600--39,100/- रु. (पीबी-3) के पे बैंड में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग में अवर सचिव (तदर्थ) नियुक्त करते हैं।

एस. पी. कक्कड़, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

सं. 103 : (फा. सं. ए-19011/23/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री एम. एल. अग्रवाल, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर-75018) (सेवानिवृत्त) को आयकर लोकपाल निर्देशिका, 2010 में निहित नियम व शर्तों के अधीन दिनांक 16.10.2012 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए या उनके 63 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, एच्.ए.जी + 75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में आयकर लोकपाल के रूप में बंगलौर में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2012

सं. 25 : (फा. सं. ए-38014/6/2012-प्रशा. 1क)--राजस्व विभाग में निजी सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री निर्मल स्वरूप शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 अक्टूबर, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 नवम्बर 2012

सं. 109 : (फा. सं. ए-50050/139/2012-प्रशा. 1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस. I(यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को दिनांक 30.10.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व विभाग

में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री/श्री/सुश्री
1.	एस. एन. एस. तुषीर
2.	कुसुम बहुगुणा
3.	आर. पी. त्यागी
4.	तिलक राज

2. उपर्युक्त अधिकारियों की 'तदर्थ' पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) जिन अधिकारियों ने सी.एस.एस. हेतु संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदिष्ट किया गया 'घ' स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें डीओपी एंड टी द्वारा नामांकन किए जाने पर पूर्वाक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- (v) 'तदर्थ' पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1083/2007 के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किये गये किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 9 नवम्बर 2012

सं. 110 : (फा. सं. ए-19013/18/2012-प्रशा. 1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस. I(यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री सुब्रता हज़रा को दिनांक 07.11.2012 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व

विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की “तदर्थ” पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) जिन अधिकारियों ने सी.एस.एस. हेतु संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदिष्ट किया गया ‘घ’ स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें डीओपी एंड टी द्वारा नामांकन किए जाने पर पूर्वोक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- (v) ‘तदर्थ’ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1083/2007 के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किये गये किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 नवम्बर 2012

सं. 111 : (फा. सं. ए-19013/19/2012-प्रशा. 1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस. I(यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री महेन्द्र नाथ को दिनांक 06.11.2012 (अपराह्न) से तथा अगले आदेशों तक 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की “तदर्थ” पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

- (iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।
- (iv) जिन अधिकारियों ने सी.एस.एस. हेतु संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदिष्ट किया गया ‘घ’ स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें डीओपी एंड टी द्वारा नामांकन किए जाने पर पूर्वोक्त प्रशिक्षण लेना होगा।
- (v) ‘तदर्थ’ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1083/2007 के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किये गये किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 नवम्बर 2012

सं. 112 : (फा. सं. ए-19011/28/2012-प्रशा. 1)--राष्ट्रपति, श्री एच. के. शर्मा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (सेवा निवृत्त) को दिनांक 31.10.2012 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा 63 वर्ष की आयु तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, एच.ए.जी. + 75,500--80,000/- रु. के वेतनमान में मुंबई में अप्रत्यक्ष कर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2012

सं. 113 : (फा. सं. ए-19013/24/2012-प्रशा. 1)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस. I(यू) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री तपन कुमार सतपथि को दिनांक 09.11.2012 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेशों तक 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की “तदर्थ” पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

- (i) तदर्थ पदोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की इस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य के लिए अथवा अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गणना नहीं की जाएगी।

(iv) जिन अधिकारियों ने सी.एस.एस. हेतु संवर्ग प्रशिक्षण योजना में आदिष्ट किया गया 'घ' स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, उन्हें डीओपी एंड टी द्वारा नामांकन किए जाने पर पूर्वोक्त प्रशिक्षण लेना होगा।

(v) 'तदर्थ' पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित ओए सं. 1083/2007 के अन्तिम परिणाम के अधीन होगी तथा किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा ओए सं. 1083/2007 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संबंधित मामलों में किये गये किसी भी अन्य आदेश के भी अधीन होगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर 2012

सं. 114: (फा. सं. ए-19013/25/2012-प्रशा.-1--भारत के राष्ट्रपति, श्री रामजी लाल मीणा, भारतीय राजस्व सेवा (सी.शु. एवं के. उ. शु. : 2002) को दिनांक 01.11.2012 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. ए-12011/5/2012-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस-I (यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी, श्री पंकज गुप्ता (सीएसएल : 7261), को 09 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. ए-12011/5/2012-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस-I (यू) के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी, श्री सुनील कुमार मिश्र (सीएसएल : 7192), को 23 नवम्बर, 2012 के अपराह्न से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए पूर्णतया तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित आदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन होंगी।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2012

सं. 7/3/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्री सुधीर कुमार मिश्रा को दिनांक 25.10.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, कोलकाता के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

सं. 7/3/2011-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 6 के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, डॉ. राजीव विक्रम सिंह गौतम को दिनांक 05.11.2012 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण, पुणे के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. 19012/5/2007-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अधिकरण-I, अहमदाबाद के पीठासीन अधिकारी श्री कृष्णेंद्र घोष को दिनांक 30.10.2012 से और अगले आदेशों तक, अपने स्वयं के कार्यभार के अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरण-II, अहमदाबाद के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. ए-22015/3/2007/एडी.-I--वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग में निदेशक (आईईएस) श्री वाई. सी. शर्मा, अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

बिप्लब कुमार राय, अवर सचिव

## महालेखा नियंत्रक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 नवम्बर 2012

सं. ए-32013/8/2012/ग्रुप ए/2553-65--राष्ट्रपति, निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा अधिकारियों (समूह 'ख') को समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') भर्ती नियमावली, 2006 के अनुसार रु. 8,000-275-13,500/- (संशोधन-पूर्व) (रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन के साथ नया वेतन बैंड-3) के वेतनमान में 01 दिसम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से भारतीय सिविल लेखा सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ समयमान में, परीक्षा पर नियुक्त करते हैं:-

क्रं. सं.	नाम
	(सर्वश्री)
1.	ए. के. मल्होत्रा
2.	बी. एस. रावत (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर)
3.	वी. अरुणाचलम

2. परीक्षा की अवधि 01 दिसम्बर से दो वर्ष की होगी।

सी. महेश्वरन, उप महालेखा नियंत्रक

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. पीएफजी (1036)/2012-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/14/2011-सी. एस-I (डी) दिनांक 12.11.2012 द्वारा, तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के पे बैंड-3 में उप सचिव पद पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप सीएसएस की नियमित अवर सचिव, श्रीमती सुषमा कटारिया (सीएसएल संख्या 4868) ने दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उप सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/14/2011-सी. एस-I (डी) दिनांक 12.11.2012 में अनुबद्ध नियमों व शर्तों से प्रशासित है।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

सं. पीएफजी (1035)/2012-प्रशा.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/14/2011-सी. एस-I (डी) दिनांक 12.11.2012 द्वारा, तदर्थ आधार पर 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 7,600/- रुपये के पे बैंड-3 में उप सचिव पद पर उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप सीएसएस की नियमित अवर सचिव, श्री बी. पी. पंत (सीएसएल संख्या 5032) ने दिनांक 26 नवम्बर, 2012 के अपराह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में उप सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

2. यह नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 4/14/2011-सी. एस-I (डी) दिनांक 12.11.2012 में अनुबद्ध नियमों व शर्तों से प्रशासित है।

क्षितीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 नवम्बर 2012

सं. पीएफजी (792)/2011-प्रशा.-II--कार्यालय आदेश संख्या ए-22011/1/2011 प्रशासन-II दिनांक 14.11.2012 के द्वारा स्थानांतरण के परिणामस्वरूप भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की कनिष्ठ समयमान अधिकारी, सुश्री अनु सिंह ने दिनांक 26.11.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक निदेशक (मुख्यालय) के पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

सं. पीएफजी (786)/2011-प्रशा.-II--कार्यालय आदेश संख्या ए-22011/1/2011 प्रशासन-II दिनांक 14.11.2012 के द्वारा स्थानांतरण के परिणामस्वरूप भारतीय कारपोरेट विधि सेवा की कनिष्ठ समयमान अधिकारी, सुश्री लता सिसोदिया ने दिनांक 26.11.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक सहायक निदेशक (मुख्यालय) के पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

आर. के. पांडे, अवर सचिव

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2012

सं. ए-12022/2/2012-ई.-II--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (ए) तथा दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस-II (पार्ट-III) के अनुसरण में श्री पी. आर. रामानाथन को, जो इस विभाग के स्थायी निजी सचिव हैं तथा वर्तमान में कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सेटलमेंट कमीशन, चेन्नै में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर हैं, "नेक्स्ट बिलो रूल" के तहत प्रोफार्मा प्रमोशन देते हुए उनके कनिष्ठ की प्रोन्नति की तिथि अर्थात् दिनांक 17 जुलाई, 2012 से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वर्ष 2010 की चयनसूची (पार्ट) (एसक्यू) में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजीव कुमार, अवर सचिव

## औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. ए-19012/1334/2011-स्था.-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और



उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव, श्री एस. पी. शर्मा दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. ए-12022/02/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री इस्तियाक अहमद, आईआरएस (आईटी : 1992) को 04 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. ए-22012/01/2012-स्था.-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2012 के का.ज्ञा. संख्या 3/4/2012-सीएस-II (ए) के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) संवर्ग के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिकों ग्रेड 'क' और 'ख' विलयित' (निजी सचिव) के नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) ग्रेड के पैनल के लिए चयन सूची वर्ष 2011 में शामिल कर लिए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति उन्हें 16.11.2012 से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संवर्ग में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव पे बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के रूप में नियुक्त करते हैं।

क्रं. सं.	नाम	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सूची में क्रम संख्या
1.	श्री डी. के. शर्मा	7
2.	सुश्री माचीराजू सारदा	38

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2012

सं. ए-23011/17/2012-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस.-II (क) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय श्रीमती रीता मनचंदा (सीएसएल सं. 938) को प्रवर सूची वर्ष 2010 (भाग) के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 28.09.2012 (अपराह्न) से पे-बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. में 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उन्हें औषध विभाग में वर्तमान रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

सं. ए-23011/17/2012-मा.सं.-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.07.2012 के का.ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस.-II (क) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय श्री सतीश चंदर (सीएसएल सं. 837) को प्रवर सूची वर्ष 2010 (भाग) के लिए सीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त संवर्ग में दिनांक 28.09.2012 (अपराह्न) से पे-बैंड (पीबी-2) 9,300--34,800/- रु. में 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उन्हें उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) में वर्तमान रिक्त पद पर तैनात किया जाता है।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. ए-19011/12/2007-एचआर-II--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/20/2007-ईओ (एमएम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय श्री एस. के. सिन्हा, आईएफएस (जेके : 93), की उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में निदेशक के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को 04.11.2012 से 04.02.2013 तक तीन माह की अवधि के लिए बढ़ाते हैं।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

औषध विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 2012

सं. ए-19011/06/2012-स्था.--राष्ट्रपति द्वारा श्री कैलाश पति (आईईएस-81) को दिनांक 14.11.2012 (अपराह्न) से पीबी-4 (37,400--67,000/- रुपए) + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपए में औषध विभाग में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

एस. आर. मीना, अवर सचिव

दिनांक 29 नवम्बर 2012

सं. ए-32011/2/2010-स्था.--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (तदर्थ) श्री अनिल जैन का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2011-सीएस.-1 (V) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 01.07.2010 (पूर्वाह्न) से पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए में औषध विभाग में अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस. आर. मीना, अवर सचिव

सं. ए-32011/2/2010-स्थापना--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (तदर्थ) श्री अजीत कुमार साह का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2011-सीएस-1 (V) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 04.06.2010 (पूर्वाह्न) से पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में औषध विभाग में अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की नियमित नियुक्ति कैंट, पीबी, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में "पी. एस. भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" नामक ओ ए संख्या 611/2012 में अंतिम निर्णय तथा इससे जुड़े किसी भी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अधधीन होगी।

एस. आर. मीना, अवर सचिव

सं. ए-32011/2/2010-स्थापना--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (तदर्थ) श्री आलोक कुमार कर्ण का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2011-सीएस-1 (V) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 31.05.2010 (पूर्वाह्न) से पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में औषध विभाग में अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की नियमित नियुक्ति कैंट, पीबी, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में "पी. एस. भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" नामक ओ ए संख्या 611/2012 में अंतिम निर्णय तथा इससे जुड़े किसी भी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अधधीन होगी।

एस. आर. मीना, अवर सचिव

सं. ए-32011/2/2010-स्थापना--राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (तदर्थ) श्री सीता राम मीना का नाम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/11/2011-सीएस-1 (V) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 14.06.2010 (पूर्वाह्न) से पीबी-3 (15,600--39,100/- रु.) + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में औषध विभाग में अवर सचिव (ग्रेड-I) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की नियमित नियुक्ति कैंट, पीबी, नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में "पी. एस. भंडारी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" नामक ओ ए संख्या 611/2012 में अंतिम निर्णय तथा इससे जुड़े किसी भी मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अधधीन होगी।

एस. आर. मीना, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. ए-12031/01/2009-स्था.--राष्ट्रपति, सुश्री नीना सिंह पाण्डेय, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 88) को खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में दिनांक 21.06.2012 से आगे दो वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 21.06.2014 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एल. हौकिप, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. ए-38014/15/2012-स्था.-1--खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री एस. जानकीरमन अधिवर्षिता की आयु होने पर 30 नवम्बर, 2012 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली-110108, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

सं. ए-32014/03/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, सीएसएस के अनुभाग अधिकारी के वेतनमान में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीखों से तदर्थ आधार पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नियुक्त करते हैं :--

i	श्रीमती शशि करारिया	18.09.2012
ii	श्री दीपक कुमार मिश्रा	17.09.2012
iii	श्री संजय कुमार मिश्रा	17.09.2012
iv	श्री बी. एस. बिष्ट	01.10.2012
v	श्री सुमित कुमार सचान	17.09.2012
vi	श्री एस. बंधोपाध्याय	18.09.2012
vii	श्री जी. पी. ओझा	17.09.2012
viii	श्री एम. के तिवारी	01.10.2012
ix	सुश्री नीलम भाटिया	17.09.2012
x	श्री कृष्ण पाल	01.10.2012
xi	श्री आर. आर. श्रीप्रकाश	01.10.2012
xii	श्री कुलवन्त राय	01.10.2012
xiii	श्री जी. एल. मदान	17.09.2012

xiv	सुश्री ए. वसंथाकुमारी	18.09.2012
xv	श्री धन सिंह	18.09.2012
xvi	श्री डी. पी. शुक्ला	17.09.2012
xvii	श्रीमती लता रमन	17.09.2012
viii	श्री अशोक कुमार सिन्हा	17.09.2012
xix	श्री के. आर. सिन्हा	17.09.2012
xx	श्री ओ. पी. बासवाला	17.09.2012

2. उक्त अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/11/2012-सीएस-आई(एस) दिनांक 23.08.2012 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 12 नवम्बर 2012

सं. ए-32014/03/2012-स्थापना-I--राष्ट्रपति, मंत्रालय के सहायक श्री भारत भूषण को 01.11.2012 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री भारत भूषण की तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.08.2012 के का.ज्ञा.सं. 6/11/2012-सीएस-I (एस) में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2012

सं. ए-32013/02/11-ई-I--कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 5/9/2012-सीएस 1 (यू) दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 द्वारा सीएसएस के ग्रेड I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप, सीएसएस के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की नियुक्ति 31.05.2013 की अवधि के लिए अथवा जब तक कि पद नियमित आधार पर भरे नहीं जाते अथवा आगे आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एतद्वारा ग्रेड-I (अवर सचिव) पद पर क़ी जा रही है :--

क्र. सं.	नाम	अवर सचिव (तदर्थ) के पद पर पदोन्नति की तारीख
1.	सुश्री सोमा सन्याल (सीएसएल सं. 7213)	07.11.2012 (पूर्वाह्न से)
2.	श्री थॉमस मैथ्यू (सीएसएल सं. 7402)	07.11.2012 (पूर्वाह्न से)
3.	श्री छत्तर पाल (सीएसएल सं. 7510)	14.11.2012 (पूर्वाह्न से)

2. अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति कोर्ट मामलों/कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित विभिन्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 21 नवम्बर 2012

सं. ए-32013/02/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 05/09/2012-सीएस-I(यू) दिनांक 30.10.2012 द्वारा तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) पर पदोन्नति के फलस्वरूप; श्री प्रेम नारायण, अनुभाग अधिकारी, महानिदेशालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय को 20.11.2012 के अपराह्न से पूर्णतया तदर्थ आधार पर और अगले आदेश तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

यह तदर्थ पदोन्नति कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के उक्त संदर्भित आदेश की शर्तों के अधीन है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19014/4/05-स्थापना-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के आदेश संख्या 04/14/2011 सीएस-I (डी) द्वारा तदर्थ आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप, श्रीमती निर्मला के. कुट्टी, ग्रेड-I (अवर सचिव) सीएसएस को एतद्वारा 12 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर वर्तमान में उनके द्वारा धारित अवर सचिव के पद को वैयक्तिक उन्नयन द्वारा उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नियुक्त किया जाता है।

2. अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति अदालत के विविध मामलों एवं 12 नवम्बर, 2012 के डीओपीटी के उक्त वर्णित आदेश बिन्दु संख्या 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन है।

अनिल कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं शैम्बोप्रेषी  
(आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. ए-22010/4/2012-स्था. II/(आयुष)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र सं. 5/9/2012 सी.एस.-I(यू) तारीख 30.10.2012 के द्वारा तदर्थ आधार पर सीएसएस के चयन ग्रेड-I (अवर सचिव) में पदोन्नति के परिणामस्वरूप, श्री अंजन बिश्वास को 20.11.2012 के अपराह्न से आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और

सोवा-रिम्पा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

चंद्रशेखर, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-38012/01/2012-प्रशा. I--स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कार्यरत डॉ. बिंदु कुमार तिवारी, सलाहकार (पोषण) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.10.2012 (अपराह) को सेवा-निवृत्त हुए।

प्रेम प्रकाश, उप निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. 6-17/93-एफपी/आईएनएम--कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक कृषि केन्द्र, गाजियाबाद में क्षेत्रीय निदेशक डॉ. आर. एन. बिसोयी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से 30.9.2012 के अपराह से सेवानिवृत्त हुए।

भैरव दत्त, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

सं. 4-4/2008-विस्तार--सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से विस्तार निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पीबी-3 (रु. 15,600--39,100/- + 6,600/- (ग्रेड पे) में संयुक्त निदेशक (विस्तार) जी.सी.एस. समूह 'क' राजपत्रित के पदधारी श्री पी. मजूमदार, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय जैविक खेती केन्द्र, नागपुर को 2 नवम्बर, 2012 के अपराह से निदेशालय में उनके कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है।

आर. एस. वर्मा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. 2-26/2011-मा. (प्रशासन)(i)--राष्ट्रपति, डॉ. एस. के नाईक, वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई में 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (पे बैंड-3) 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 30 मई, 2012 के पूर्वाह से क्षेत्रीय निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

सं. 2-26/2011-मा. (प्रशासन) (ii)--राष्ट्रपति, श्री डी. के. गुलाटी, वरिष्ठ मात्स्यिकी वैज्ञानिक को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अधीन भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण मुम्बई में 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन (पे बैंड-3) 15,600--39,100/- रुपये के वेतनमान में 02 अगस्त, 2012 के पूर्वाह से क्षेत्रीय निदेशक (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2012

सं. 5-17/2012-प्रशासन--सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 05.10.2012 के कार्यालय आदेश सं. ए-32013/02/2010-ई-आई के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री वी. के गुप्ता को पे बैंड 37,400--67,000/- रुपये (पीबी-4) ग्रेड पे 10,000/- रुपये में 22 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त करते हैं।

जय किशोर, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2012

सं. ए-12022/03/2010-स्था. II (भाग)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जुलाई, 2012 के का. ज्ञा. सं. 4/2/2012-सीएस. II (ए) के अनुसरण में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों (तदर्थ) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) के पद पर दिनांक 17 जुलाई, 2012 के पूर्वाह से चयन सूची वर्ष 2010 के लिए नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	सीएसएल सं.	मंत्रालय/विभाग जहां कार्यरत हैं	मंत्रालय/विभाग जहां नामित किया गया
	(श्री/श्रीमती/सुश्री)			
1.	नम्रता शर्मा, नि. स. (तदर्थ)	151	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
2.	अनिता कौरा, नि. स. (तदर्थ)	160	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
3.	पुष्पा त्रिथानी, नि. स. (तदर्थ)	170	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
4.	नरेन्द्र दत्त, नि. स. (तदर्थ)	189	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
5.	राम रतन, नि. स. (तदर्थ)	588	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता
6.	सरिता अरोड़ा, नि. स. (तदर्थ)	791	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	सामाजिक न्याय और अधिकारिता

वीरेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2012

दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. ए-12034/7/2012-स्था.-II--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के नियमित वैयक्तिक सहायक श्री प्रमोद पन्त को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) के कार्यालय में दिनांक 12.11.2012 (अपराह्न) से मंत्री के कार्यकाल तक सह सत्रावसान आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहायक निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 20 नवम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2008-स्था.I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012/सीएस-I(यू) के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (सीएसएल सं. 7437) के अनुभाग अधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा को पीबी-3 (6,600 रुपए की ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100 रुपए के वेतनमान) में तदर्थ आधार पर 30.10.2012 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अधिकारी की यह तदर्थ पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित ओ.ए. सं. 1083/2007 के अंतिम निर्णय और ओ.ए. सं. 1083/2007 के अलावा किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अधीन होगी।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. ए-12034/08/2012-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री एन. शंकर, नियमित वैयक्तिक सहायक, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नाईक) के अपर निजी सचिव के रूप में 12.11.2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) में 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ मंत्री के कार्यकाल के सह-सत्रावसान तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

सं. ए-32013/03/2007-स्था.I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) के चयन ग्रेड (उप सचिव) में पदोन्नत होने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 नवम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/14/2011-सी.एस.ए. (डी) के तहत तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में इस मंत्रालय में तैनाती होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के मूल ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी सुश्री सरोज जैसिया को 23.11.2012 (अपराह्न) से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सी.एस.एस. के चयन ग्रेड (अप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

2. अधिकारी की उपरोक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या 4097/2011 (अरुण गौड़ बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), रिट याचिका संख्या 4616/2011 (वी. एस. पाण्डेय तथा अन्य बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), रिट याचिका संख्या 7619/2011 (यू.पी.एस.सी. बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), रिट याचिका संख्या 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह तथा अन्य), एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में संबंधित अन्य रिट याचिका संख्याएं डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनन्त किशोर सरण), डब्ल्यू.पी. (सी.) संख्या 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशा एवं अन्य), डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 2525/2012 (भारत संघ बनाम सईद इकराम रिजवी एवं अन्य), डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), डब्ल्यू.पी.(सी.) संख्या 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्या चट्टोपाध्याय एवं अन्य) तथा उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी.(सी.) संख्या 9653/2012 (सईद इकराम रिजवी तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) और उपरोक्त के अलावा संबंधित अन्य किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के भी अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 6 दिसम्बर 2012

सं. ए-32013/1/2008-स्था.I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012 सीएस-I(यू) के अनुसरण में कपड़ा मंत्रालय में तैनात और वाणिज्य विभाग के संवर्ग के अनुभाग अधिकारी श्री सुनील कुमार महतो, (सीएसएल सं. 7284) को पीबी-3 (6,600 रुपए की ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100 रुपए के वेतनमान) में तदर्थ आधार पर 27.11.2012 (पूर्वाह्न) से 31.05.2013 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति अधिकारी को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अधिकारी की यह तदर्थ

पदोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में लम्बित ओ.ए. सं. 1083/2007 के अंतिम निर्णय और ओ.ए. सं. 1083/2007 के अलावा किसी भी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अधीन होगी।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

सं. ए-19011/10/2010-स्था. I--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में श्री आर. कृष्णामूर्ति, उप-सचिव, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर, 2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

#### जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2012

सं. 19011/18/2012-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिनांक 12.11.2012 के आदेश सं. 4/14/2012 सीएस-I(डी) के अनुसरण में तथा कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के दिनांक 22.11.2012 के कार्यालय आदेश सं. ए-19014/56/2005-स्था. द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यमुक्ति पर, राष्ट्रपति श्री रूपक चौधरी को 23.11.2012 (पूर्वाह्न) से जनजातीय कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. चन्द्र सेकर, अवर सचिव

#### अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. ए-53011/8/2012-स्था.--राष्ट्रपति, श्री सुधार सिंह रावत, भारत के जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद लिमिटेड (टीआरआईएफडी) में नियमित सहायक को 30 नवम्बर, 2012 से अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, भारत सरकार के अपर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनके वेतन एवं भत्ते संगत नियमों के अनुरूप निर्धारित किए जाएंगे।

2. माननीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप श्री सुधीर सिंह रावत की नियुक्ति सहकालिक आधार पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के कार्यकाल के साथ अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की जाती है।

3. इसे अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

#### संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 नवम्बर 2012

सं. ए. 32013/4/2010-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को, कार्मिक और

प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2012 के आदेश सं. 5/9/2012 सीएस-I(यू.) के अनुसार इनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में 6,600/- रु. ग्रेड वेतन के साथ दिनांक 31.05.2013 तक या अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	सीएसएल सं.	दूरसंचार विभाग में तदर्थ आधार पर ग्रेड-I- (अवर सचिव) के रूप में नियुक्ति की तिथि
----------	-----	------------	--

(श्री/सुश्री)

1.	यू. लाकरा	7992	30.10.2012 (पूर्वाह्न)
2.	जे. पी. गौतम	7422	30.10.2012 (पूर्वाह्न)
3.	राकेश कुमार	7338	30.10.2012 (पूर्वाह्न)
4.	निठाली राम	7256	06.11.2012 (अपराह्न)
5.	ईके. दास	7525	08.11.2012-(पूर्वाह्न)
6.	अनिल कुमार सिंह	7404	09.11.2012 (पूर्वाह्न)

2. यथा उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :--

- उक्त तदर्थ पदोन्नति, उन्हें उक्त ग्रेड में अनिश्चित काल तक पद पर बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।
- ये तदर्थ नियुक्तियाँ, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।
- तदर्थ आधार पर नियुक्ति, उस मंत्रालय/विभाग जो अधिकारी को आबंटित किया गया है, में अवर सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।
- अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा उसी ग्रेड में वरिष्ठता या उससे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजनार्थ नहीं मानी जाएगी।
- उन अधिकारियों, जिन्होंने केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग प्रशिक्षण योजना में शामिल होकर 'डी' स्तर का अनिवार्य प्रशिक्षण नहीं लिया है, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए जाने वाले नामांकन के अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- अधिकारियों की यह तदर्थ पदोन्नति, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष लम्बित ओ.ए. सं. 1083/2007

के बारे में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय तथा ओए 1083/2007 के अतिरिक्त इससे जुड़े किसी अन्य मामले के बारे में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए अन्य आदेश के अध्याधीन होगी।

विमल, अवर सचिव

#### इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

##### राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

सं. 6169/एनआईसी/2012-प्रशा.-II--महानिदेशक, रा.सू.वि. केन्द्र एतद्वारा श्री रामानंदा नौगमैकम्प (कर्मचारी कोड सं. 6169) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-तवांग जिला केन्द्र अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस.बी.' के पद से त्यागपत्र दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 की अपराह्न से स्वीकार कर लिया है और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप-निदेशक (प्रशा.-II)

सं. ए-39013/1/2012-प्रशा.-II--महानिदेशक, रा.सू.वि. केन्द्र द्वारा श्री शंकर राव कोप्पल (कर्मचारी कोड सं. 6735) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-गुजरात राज्य एकक, गांधी नगर में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'एस.बी.' के पद से त्यागपत्र दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 की अपराह्न से स्वीकार किया गया है और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

सुभाष दत्ता, उप-निदेशक (प्रशा.-II)

#### रेल मंत्रालय

##### (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. ई(जी.पी.)/2011/3/2--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के बिजली इंजीनियरिंग विभाग के निम्नलिखित 100 ग्रुप-बी अधिकारियों जो कि निम्न दर्शाए गए रेलों से हैं, की 10.07.2012 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग सेवा (आई. आर. एस. ई. ई.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

2010-11 के लिए पैल

क्र. सं.	नाम	रेलवे
1	2	3
	(सर्वश्री)	
1.	आर. पार्थसारथी	द.रे.
2.	के. सेन लश्कार	पूर्वोत्तर सी.रे.

1	2	3
3.	एस. एन. पॉल	द.पू.रे.
4.	ए. के. मित्रा	चि.रे.का.
5.	विनोद कुमार सिंह	म.रे.
6.	दिनेश कुमार जैन	प. मध्य रे.
7.	डी. बालाजी	द. मध्य रे.
8.	सत्यजीत कुण्डू	पू.रे.
9.	एस. विजय कुमार	द.रे.
10.	एस. आर. बाग	पू.रे.
11.	मानस दास	पू.रे.
12.	सुखेन्दू कुमार सरकार	पू.रे.
13.	आशित कुमार मन्ना	पू.रे.
14.	यू. शंकर	द.रे.
15.	टीकू राम चौधरी	उ.प.रे.
16.	सुभाषिश नाग	प.रे.
17.	दीपक के. गुप्ता	उ.प.रे.
18.	के. एस. चौहान	प.रे.
19.	एन. वेंकटेश्वरा राव	द.म.रे.
20.	एन. मनोहरा राव	द.म.रे.
21.	के. डब्ल्यू. नचप्पा	रे.प.का.
22.	आर. के. श्रीवास्तव	पू.रे.
23.	एस. लक्ष्मनस्वामी	आई.सी.एफ.
24.	एस. वी. राघवन	अ.अ.मा.सं.
25.	एस. के. एन. सिंह	पू.रे.
26.	सरजन ठाकुर	पू.रे.
27.	गणेश पाण्डे	पू.रे.
28.	एस. एन. दास गुप्ता	पू.रे.
29.	एस. एन. दास	पू.रे.
30.	अर्पन कुमार	उ.रे.
31.	एम. के. गोयल	उ.रे.
32.	राम सागर राम (अ.जा.)	पूर्वोत्तर रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

1	2	3	1	2	3
33.	एस. हल्दर (अ.जा.)	द.पू.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	4.	वी. नागराजन	द.रे.
34.	किशन सिंह (अ.जा.)	म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	5.	के. दुर्ई राज	द.रे.
35.	बी. एल. बाथो (अ.जा.)	म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	6.	एम. के. चटर्जी	चि.रे.का.
36.	ए. जे. गायकवाड़ (अ.जा.)	म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	7.	मनमीत सिंह	चि.रे.का.
37.	पी. आर. लाम्बा (अ.जा.)	उ.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	8.	एस. मण्डल	द.पू.रे
38.	बी. के. किस्कू (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	9.	बी. एस. शिव प्रसाद	द.म.रे.
39.	दिलीप कुमार कुजूर (अ.ज.जा.)	पू.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	10.	वी. वेंकटरमना	द.म.रे.
40.	के. आर. मीणा (अ.ज.जा.)	उ.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	11.	चौ. कृष्णा प्रसाद	द.म.रे.
41.	के. भगत (अ.ज.जा.)	द.पू.म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)	12.	आर. बी. सोलंकी	म.रे.
42.	मोह. हसीन	डी.रे.का.	13.	पी. के. सक्सेना	म.रे.
43.	एस. सी. रॉय	पूर्वात्तर सी.रे.	14.	ए. के. सिंह (अ.जा.)	डि.रे.का.
44.	वी. एम. फिराक्कर	म.रे.	15.	उज्जल साह	पू.रे.
45.	एम. पी. खोबरगडे	म. रे.	16.	सी. राम (अ.जा.)	उ.रे.
46.	पी. सेन्थील वेल्लन	द.रे.	17.	शिव प्रसाद (अ.जा.)	उ.रे.
47.	आर. सुब्बा राव	द.रे.	18.	एस. के. जैन	उ.रे.
2011-12 के लिए पैनल			19.	रमेश चन्दर (अ.जा.)	उ.रे.
1.	ए. के. पाठक	प.म.रे.	20.	इदरिश खान	उ.रे.
2.	राम नरेश गर्ग	उ.प.रे.	21.	कुन्तल घोष	पू.रे.
3.	लल्लन तिवारी	पू.रे.	22.	अरूणव रॉय	पू.रे.
			23.	विरेन्दर सिंह (अ.जा.)	रे.डि.का.
			24.	विश्वम्भर नाथ	पू.रे.
			25.	गौतम रॉय	पू.रे.
			26.	एस. रंगराजन	द.रे.
			27.	एम. प्रभाकरन (अ.जा.)	द.रे.
			28.	पी. दत्ता	चि.रे.का.
			29.	ए. के. मित्रा	द.पू.म.रे.
			30.	आर. के. डोंगरे (अ.जा.)	द.पू.म.रे.
			31.	उत्पल डे	द.पू.म.रे.
			32.	अब्दुल मन्नन	द.पू.म.रे.
			33.	अधाराम सुरेश	द.पू.म.रे.
			34.	वाई. वेंकटेश्वरा राव	द.म.रे.



1	2	3
35. ए. के. प्रधान		द.पू.म.रे.
36. आर. नागेश्वरा राव		द.म.रे.
37. हरचरन सिंह (अ.जा.)		डी.रे.आ.का. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
38. योगेन्द्र के विमल (अ.जा.)		प.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
39. मदन (अ.जा.)		डि.रे.का. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
40. डी. ननकुराम (अ.जा.)		द.पू.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
41. ए. के. रॉय (अ.जा.)		पू.म.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
42. सतीश एच. बोरकर (अ.जा.)		रे.प.का. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
43. बाबूल बर्मन (अ.जा.)		द.पू.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
44. डी. सौन्दराजन (अ.जा.)		द.प.रे. (अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
45. सी. एस. श्याम (अ.ज.जा.)		अ.अ.मा.सं. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
46. एम. डी. बनारकर (अ.ज.जा.)		म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
47. आर. आर. लजारस (अ.ज.जा.)		डि.रे.का. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
48. के. ननुदा (अ.ज.जा.)		द.म.रे. (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
49. एस. एन. साहू		पू. तट रे.

1	2	3
50. एम. एस. एन. मूर्ती		पू. तट रे.
51. एल. योगेश्वरा राव		पू. तट रे.
52. अजीमुद्दीन		द.म.रे.
53. कमलनाथ चौधरी		म.रे.

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति श्री बी. के. मिश्रा के द्वारा कैंट/इलाहाबाद में दायर की गई याचिका सं. 822/2012 के परिणाम के अधधीन की जाती है।

आर. सी. जाट, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 5 दिसम्बर 2012

सं. ई(ओ)III-2012/आरएन/38--श्री भरत सल्होत्रा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी (जन्म तिथि : 13.05.1961, डीआईटीएस : 22.12.1986) का डीएफसीसीआईएल में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 17.09.2012 को रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. सी. जाट, सचिव  
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2012

सं. ए-32014/02/2012-ई.1--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा. सं. 06/11/2012-सीएस-1 (एस) के अनुसरण में, निम्नलिखित नियमित सहायकों (सीएसएस) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 9,300--34,800/- रुपये के वेतन बैंड-2 + 4,800/- रुपये के ग्रेड पे में दिनांक 05.11.2012 (पूर्वाह्न) से दिनांक 31.12.2012 तक अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	सीएसएल एसक्यू 2003 में क्र. सं.	एसक्यू (रैंक)	नाम	जन्म तिथि	श्रेणी
1.	54	एसक्यू	श्रीमती इंदिरा शर्मा	18.12.1956	सामान्य
2.	55	डीआर/94	श्री संदीप कुमार	02.08.1977	सामान्य
3.	113	एसक्यू	श्री पी. के. अवस्थी	20.12.1956	सामान्य
4.	129	एसक्यू	श्रीमती सुमन भट्टाचार्य	26.05.1955	सामान्य

2. इस तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने के लिए या सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं किया जाएगा।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

दिनांक 22 नवम्बर 2012

सं. ए-12025/1/2010-ई.1--कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/9/2012-सीएस-1 (यू) तारीख 30.10.2012 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, सी एसएस संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को नीचे लिखे उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से दिनांक 31.05.2013 तक अथवा पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हो, 15,600--39,100/- रुपए के पे बैंड-3 + 6,600/- रुपए के ग्रेड पे में तदर्थ आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-1) के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम तथा सीएसएस	तारीख
1.	श्री अशोक प्रसाद (सीएसएस सं. 7457)	30.10.2012 (पूर्वाह)
2.	श्री मनीष कुमार सिंह (सीएसएस सं. 7465)	30.10.2012 (पूर्वाह)

2. तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में उनकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :-

- (i) इस तदर्थ प्रोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने के लिए या सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति बगैर कोई कारण बताए, किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
- (iii) अवर सचिव ग्रेड में तदर्थ आधार पर की गई सेवा की गणना, उस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन या अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।
- (iv) अधिकारियों जिन्होंने सीएसएस के लिए संवर्ग प्रशिक्षण योजना में यथा-आदिष्ट अनिवार्य स्तर 'घ' प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
- (v) यह तदर्थ प्रोन्नति केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओए नं. 1083/2007 के अलावा किसी भी संबंधित मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्वधीन होगी।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सं. ए-12033/1/2010-ई-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.10.2012 के कार्यालय आदेश सं. 21/1/2012-सीएस.-1 (डी) के

तहत केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत संयुक्त सचिव अथवा उसके समकक्ष पद धारित किए जाने और संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के रूप में अपनी तैनाती के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में एसएजी ग्रेड में उनका नाम पैनल में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, सीएसएस संवर्ग के वरिष्ठ चयन ग्रेड अधिकारी डॉ. ए. आर. गोयल जो वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में 37,400--67,000 रुपये के पे बैंड-4 + 10,000 रुपये के ग्रेड पे में दिनांक 29.10.2012 (पूर्वाह) से संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. ए-38013/05/2012-ई.-1--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत श्रीमती इन्दिरा देवी कुट्टी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.11.2012 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गई हैं।

देव राज शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

सं. 22/2012, फा. सं. 12/03/2012-प्रशा.-II--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री शिशिर दास, निदेशक, विद्युत मंत्रालय, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. पी. बोस, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2012

सं. 7/1/2010-सी.जी.डब्ल्यू.बी.--राष्ट्रपति, श्री संजीव कुदेसिया, सहायक जल भूविज्ञानी को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में दिनांक 05.09.2012 से पीबी-3, 15,600--39,100/- + 5,400/- ग्रेड वेतन के वर्तमान में वैज्ञानिक 'ख' (कनिष्ठ जल भूविज्ञानी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

विनीत अब्राहम, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2012

सं. ए-24012/2/2011-एसएस-1--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के उपरांत, श्री राम चन्द्र मिश्रा, भा.प्र.से. (एमटी : 78), केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 30.11.2012 (अपराह) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd December 2012

No. RS.42/9/2012/118-Perl.—Shri Gurvinder Singh Guleria, Security Officer (ad hoc) has been relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. 20th November, 2012 (F/N) for his appointment as Additional Private Secretary in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in the personal staff of Hon'ble Minister of Culture (Smt. Chandresh Kumari) on deputation and Co-terminus basis.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

PLANNING COMMISSION  
(UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA)

New Delhi-110001, the 30th November 2012

No. A-19012/61/12-UIDAI—In pursuance of Unique Identification Authority of India, Planning Commission, New Delhi Letter No. A-12013/21(SO/HQ)/11-UIDAI dated 05.09.2012 and Minsstry of Defence, O/o the JS(T) & CAO, New Delhi Letter No. A./59933/SC/GS/Inf/CAO/A-5(B) dated 30.11.12, Shri Prasanth M. has assumed the charge of Section Officer in HQ, Unique Identification Authority of India, Delhi w.e.f. 30.11.1012 (AN) in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- on deputation basis for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SARKAR, Dy. Dir. (Estt.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE  
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 9th November 2012

No. A-12025/08/2010-Admn.I (LA)—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Mahendra Khandelwal, Deputy Law Officer as Additional Government Advocate (Grade-II of Indian Legal Service Cadre of the Government Advocates), in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/-) with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 22nd October, 2012, until further orders.

2. The appointment of Shri Mahendra Khandelwal to the post of Additional Government Advocate is provisional and will be subject to the final outcome of O.A. No. 454/2012 pending in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench and O.A. No. 2023/2012 pending in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

G. D. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 22nd November 2012

No. A-32014/5/2010-Admn.IV(LA) Vol. II—Consequent upon inclusion in the Select List for the year 2010 of Private Secretary of CSSS under zoning scheme vide Department of

Personnel & Training O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17.07.2012, the President is pleased to appoint following regular Personal Assistants (working as ad hoc PS) as Private Secretary on regular basis in CSSS cadre of this Department in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	CSL No.	Cadre presently working	Date of joining this Deptt.
1.	Sh. P. Uppillirsinivasan	277	Environment & Forests (on deputation to IPAB)	01.10.2012
2.	Ms. Mahalakshmi Gopalakrishnan	318	Revenue	22.10.2012
3.	Sh. M. S. Pal	617	Water Resources (CWC)	19.10.2012

ASHA SOTA, Under Secy.

The 23rd November 2012

No. A-32013/4/2006-Admn.IV (LA) Vol. II—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 20/31/2010-CS-II(A)Pt. dated 17.10.2012, the President is pleased to extend the term of appointment of following officers as Principal Private Secretary on ad hoc basis against regular vacancy in the CSSS cadre of the Ministry of Law & Justice for a period upto 15.11.2012, date of their appointment as regular PPS :—

Sl. No.	Name	Present place of posting	DoPT OM dated	Date of joining
	S/Shri			
1.	Anoop Seth	LA, LC	30.05.2011	05.07.2011
2.	Anandaraman S.	LA, LC	25.10.2011	02.11.2011
3.	Anand Kumar	LA	25.10.2011	29.12.2011 (AN)

2. The above said ad hoc appointment will not bestow on them any claim for regular promotion to the grade of PPS nor will the service rendered by them on ad hoc basis will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

ASHA SOTA, Under Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 10th December 2012

No. I-18011/04/2012/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Ms. Sarah Afzal Ahmed Rizvi, IPS (GJ:2008), in the Indian Police Service with effect from 28.08.2011.

PRASHANT NIKAM, Dir. (Police)

New Delhi, the 15th November 2012

No. 44-22/2012-NDM-IV/II—In pursuance of DoPTs Letter No. 6/33/2010-EO(SM-I) dated 14.11.2012, Shri Satyajeet Rajan, IAS (KL:87) has been appointed as Joint Secretary (Administration) (Joint Secretary Level) in the National Disaster Management Authority, Ministry of Home Affairs w.e.f. 15.11.2012 (FN), on lateral shift basis, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- for a period upto 17.09.2013 or until further orders, whichever is earlier.

ASHISH KUMAR PANDA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 27th November 2012

No. 14016/21/2011-UTS-II—The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Ahuja, Selection Grade Officer of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service (DANICS) to Junior Administrative Grade-II of the Service in the Pay Scale of Rs. 12,000—16,500/- (pre revised) and Rs. 15,600—39,100/- (Grade Pay Rs. 7,600/-) (revised) from 01.07.2004 i.e. the date of appointment of his immediate junior to the said Grade in terms of sub-rule 3 and 4 (a) of Rule 7 of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service Rules, 2003.

2. On such appointment, his name will appear at Sl. No. 9A below the name of Shri Yashpal Garg (Sl. No. 09) and above the name of Shri P. K. Panda (Sl. No. 10) in the Ministry of Home Affairs Notification No. 14016/21/2011-UTS.II dated 29th February, 2012.

A. K. DAS, Under Secy.

New Delhi, the 10th December 2012

No. I-14011/17/2012-IPS.I(I)—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 04.12.2012, approved the year-wise Select Lists of the years 2001 to 2009, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 19.10.2012, containing the names of the following State Police Service Officers of Punjab, with modification towards filling up 8,2,2, nil, nil, 2, nil, 1 and 3 i.e. total 18 substantive vacancies in the Punjab Cadre of IPS:—

Select List 2001

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Balkar Singh Sidhu	07.03.1961
2.	Gurinder Singh Dhillon	05.05.1964

1	2	3
3.	Mohnish Chawla	01.05.1965
4.	Surinder Pal Singh Parmar	04.09.1966
5.	Amar Singh Chahal	22.12.1959
6.	Jatinder Singh Aulakh	04.01.1963
7.	Mukhwinder Singh Chhina	26.12.1963
8.*	Paramdip Singh Sandhu	22.02.1964

\*The name at S.No.8 has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him.

Select List 2002

0A.*	Paramdip Singh Sandhu	22.02.1964
2.	Jaskaran Singh	15.04.1964
3.	Yurinder Singh	04.10.1961

#The name at S.No 0A has been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\*The name at S.No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him.

Select List 2003

1.	Rajinder Singh	26.03.1958
2A.*	Paramdip Singh Sandhu	22.02.1964
3.	Arun Kumar Mittal	16.06.1962

#The name at S.No 1A has been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\*The name at S.No. 1A has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him.

Select List 2006

0A.*	Paramdip Singh Sandhu	22.02.1964
2.	Gursharan Singh	01.08.1964
3.	Kanwar Bahadur Singh	01.09.1960

#The name at S.No 0A has been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\*The name at S.No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him.

## Select List 2008

Sl. No.	Name	Date of Birth
0A.#*	Paramdip Singh Sandhu	22.02.1964
1.	Surinder Kumar Kalia	28.12.1961

#The name at S.No 0A has been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\*The name at S.No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him.

## Select List 2009

0A.#*	Paramdip Singh Sandhu	22.02.1964
1.	Ranbir Singh Khatra	16.03.1961
2.	Tulsi Ram	18.03.1958
3.	Sukhdev Singh Bhatti	09.10.1956

#The name at S.No 0A has been included as per the second proviso to Regulation 5(5) of the IPS (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

\*The name at S.No. 0A has been included in the list provisionally subject to clearance of criminal proceedings pending against him.

2. The aforesaid Select Lists will be subject to the decision in the SLP (C) No. 36313/2009 filed by Shri Lok Nath Angra & Others & batch.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

No. I-14011/17/2012-IPS.I(II)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of the regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Punjab Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Punjab Cadre under Sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:—

## Select List 2001

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	S/Shri	
1.	Balkar Singh Sidhu	07.03.1961
2.	Gurinder Singh Dhillon	05.05.1964
3.	Mohnish Chawla	01.05.1965
4.	Surinder Pal Singh Parmar	04.09.1966

1	2	3
5.	Amar Singh Chahal	22.12.1959
6.	Jatinder Singh Aulakh,	04.01.1963
7.	Mukhwinder Singh Chhina	26.12.1963

## Select List 2002

1.	Jaskaran Singh	15.04.1964
2.	Yurinder Singh	04.10.1961

## Select List 2003

1.	Rajinder Singh	26.03.1958
2.	Arun Kumar Mittal	16.06.1962

## Select List 2006

1.	Gursharan Singh	01.08.1964
2.	Kanwar Bahadur Singh	01.09.1960

## Select List 2008

	Surinder Kumar Kalia	28.12.1961
--	----------------------	------------

## Select List 2009

1.	Ranbir Singh Khatra	16.03.1961
2.	Tulsi Ram	18.03.1958
3.	Sukhdev Singh Bhatti	09.10.1956

2. The aforesaid appointments will be subject to the decision in the SLP (C) No. 36313/2009 filed by Shri Lok Nath Angra & Others & batch.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

HARISH CHANDRA RAI, Under Secy.

## DISASTER MANAGEMENT DIVISION

New Delhi-110001, the 23rd November 2012

No. 47-8/2010-DM-III Vol-II—The President is pleased to appoint Shri Sudeep Singh Jain as Dy. Project Director in the Project Management Unit of NCRMP, National Disaster Management Authority under Ministry of Home Affairs on deputation basis in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 09.11.2012 for a period of three years i.e. upto 08.11.2015 or until further order whichever is earlier.

SANJAY AGARWAL, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. AND PENSIONS  
(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS'  
WELFARE)

New Delhi, the 5th December 2012

No. 19011/08/2012-Admn.I—Consequent upon promotion on ad hoc basis to the post on Under Secretary (Grade-I) vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 16th November, 2012, the President is pleased to appoint Shri Kailash Chander, (CSL No. 7552), of the Central Secretariat Service (CSS) as Under Secretary (ad hoc) in the Department of Pension and Pensioners' Welfare in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 05.11.2012.

S. P. KAKKAR, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 26th October 2012

No. 103: (F.No. A. 19011/23/2012-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri M.L. Agrawal, IRS (IT: 75018) (Retd.), as Income Tax Ombudsman at Bangalore in the HAG+ Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2010 for a period of 2 years with effect from 16.10.2012 (FN) or till he attains the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 7th November 2012

No. 25 (F.No. A. 38014/6/2012-Ad.IA)—On attaining the age of superannuation Shri Nirmal Swarup Sharma, an Officer of the Central Secretariat Stenographers Service, working as Private Secretary in the Department of Revenue has retired from Government Service w.e.f. 31st October, 2012 (AN).

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 7th November 2012

No. 109 (F.No. A-50050/139/2012-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President of India is pleased to appoint following regular Section Officers of Finance Cadre of CSS to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 30.10.2012 (FN) and until further orders:—

S.No.	Name
	S/Shri/Smt.
1.	S. N. S. Tushir
2.	Kusum Bahuguna
3.	R. P. Tyagi
4.	Tilak Raj

2. The 'Ad hoc' promotion in respect of the above officers is subject to the following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- (iv) The Officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the DOP&T;
- (v) The 'ad hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 9th November 2012

No. 110 (F.No. A-19013/18/2012-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President of India is pleased to appoint Shri Subrata Hazra, a regular Section Officers in the CSS Cadre of the Ministry Home Affairs to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad-hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 07.11.2012 (FN) and until further orders:—

2. The 'Ad hoc' promotion in respect of the above officers is subject to the following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- (iv) The Officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the DOP&T;

- (v) The 'ad hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 12th November 2012

No. III (F.No. A-19013/19/2012-Ad.I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Mahendra Nath, a regular Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Urban Development to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 06.11.2012 (AN) and until further orders:—

2. The 'Ad hoc' promotion in respect of the above officers is subject to the following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- (iv) The Officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the DOP&T;
- (v) The 'ad hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 14th November 2012

No. 112: (F. No. A-19011/28/2012Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri H. K. Sharan, IRS (C&CE) (Retd.) as Indirect Tax Ombudsman at Mumbai in the HAG+ pay scale of Rs. 75,500—80,000/- for a period of two years w.e.f. 31.10.2012 (FN) or till the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 21st November 2012

No. 113: (F. No. A-19013/24/2012Ad.-I)—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.-I (U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Tapan Kumar Satpathy, a regular Section Officer in the CSS cadre of the Ministry of Home Affairs to Grade-I of the CSS (Under Secretary) on ad-hoc basis in the PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of 6,600/- in the Department of Revenue w.e.f. 09.11.2012 (FN) and until further orders.

2. The 'ad hoc' promotion in respect of the above officer is subject to the following conditions:—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade;
- (iv) The Officers, who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by the DOP&T;
- (v) The 'ad hoc' promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

The 22nd November 2012

No. 114: (F. No. A-19013/25/2012Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Ramji Lal Meena, IRS (C&CE 2002) as Under Secretary in the Central Board of Excise & Customs, Department of Revenue for a period of three years w.e.f. 01.11.2012(FN) or until further orders, whichever is earlier.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 23rd November 2012

No. A-12011/5/2012Admn.-II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/9/2012-CS.-I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Pankaj Gupta (CSL : 7261), Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis in the Department of Economic

Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 09 November 2012 for a period upto 31.05.2013.

2. The aforesaid appointment is subject to the conditions mentioned in the Department of Personnel & Training Order referred to above.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 27th November 2012

No. A-12011/5/2012Admn.-II—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 5/9/2012-CS-I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Mishra (CSL : 7192), Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I (Under Secretary) of CSS purely on ad hoc basis in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the afternoon of 23rd November 2012 for a period upto 31.05.2013.

2. The aforesaid appointment is subject to the conditions mentioned in the Department of Personnel & Training Order referred to above.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 20th November 2012

No. 7/3/2011-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Shri Sudhir Kumar Mishra as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Kolkata, for a period of five years with effect from 25.10.2012(FN) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

No. 7/3/2011-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 4 read with Section 6 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, (51 of 1993), the Central Government has appointed Dr. Rajiv Vikram Singh Gautam as Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-II, Pune, for a period of five years with effect from 05.11.2012(FN) or till he attains the age of 62 years, whichever is earlier.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

The 27th November 2012

No. A-19012/05/2007-DRT—In exercise of the powers conferred by Sub Section (2) of Section 4 of the Recovery

of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri Krishnendu Ghose, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Ahmedabad, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad, in addition to his own charge with effect from 30.10.2012 and until further orders.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 3rd December 2012

No. A-22015/3/2007-Ad.-I—Shri Y. C. Sharma, Director (IES), Finance Commission Division, Department of Expenditure stands retired from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of the 31st October, 2012.

BIPLAB KUMAR ROY, Under Secy.

(CONTROLLER GENERAL OF ACCOUNTS)

New Delhi-110003, the 26th November 2012

No. A-32013/8/2012/Gr. A/2553-65—The President is pleased to appoint, on probation, the following Sr. Accounts Officers (Group 'B') to the Junior Time Scale of ICAS (Group 'A') in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- (pre-revised) New PB-3 with Grade pay of Rs. 5,400) in terms of Indian Civil Accounts Service (Group 'A') Recruitment Rules, 2006, as amended from time to time with effect from 1st December, 2012 (FN) :—

S. No. Name

1. Shri A. K. Malhotra
2. Shri B. S. Rawat (On deputation to NHA)
3. Shri V. Arunachalam

2. The period of probation shall be two years from 1st December, 2012.

C. MAHESHWARAN, Dy. Controller General of Accounts

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 27th November 2012

No. PFG (1036)/2012-Ad.-I—Consequent on her promotion as Deputy Secretary on ad hoc basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/- vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/14/2011-CS-I (D) dated 12.11.2012, Smt. Sushma Kataria (CSL No. 4868), a regular Under Secretary of CSS has assumed



the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the forenoon of 23rd November, 2012.

2. The appointment is governed by the terms and conditions stipulated in the DoPT's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12.11.2012.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

No. PFG (1035)/2012-Ad-I—Consequent on his promotion as Deputy Secretary on ad-hoc basis in Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/- vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/14/2011-CS-I (D) dated 12.11.2012, Shri B. P. Pant (CSL No. 5032), a regular Under Secretary of CSS has assumed the charge of the post of Deputy Secretary in the Ministry of Corporate Affairs w.e.f. the afternoon of 26th November, 2012.

2. The appointment is governed by the terms and conditions stipulated in the DoPT's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12.11.2012.

KSHITISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 29th November 2012

No. PFG (792)/2011-Admn.-II—Consequent upon her transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad-II dated 14.11.2012, Ms. Anu Singh, a Junior Time Scale Officer of Indian Corporate Law Service has assumed the charge of the post of Assistant Director (Head Quarter) with effect from the forenoon of 26.11.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG (786)/2011-Admn.-II—Consequent upon her transfer vide Office Order No. A-22011/1/2011-Ad-II dated 14.11.2012, Ms. Lata Sysodiya, a Junior Time Scale Officer of Indian Corporate Law Service has assumed the charge of the post of Assistant Director (Head Quarter) with effect from the forenoon of 26.11.2012, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

##### (DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 29th November 2012

No. A-12022/2/2012-E-II—In pursuance of DOPT's O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) dated 17th July, 2012 and O.M. No. 4/2/2012-CS.II(A) (Pt. III) dated 17th October, 2012, the President is pleased to appoint Shri P. R. Ramanathan, a permanent PA of this Department, who is presently on deputation as Senior Private Secretary in the Customs and Central Excise Settlement Commission, Chennai, as Private Secretary of CSSS in the Select List Year 2010 (Part) (SQ) w.e.f. 17th July, 2012 i.e. the date of promotion of his junior,

by granting him proforma promotion under 'Next below Rule'.

RAJEEV KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 30th November 2012

No. A-19012/1334/2011-E.I—On attaining the age of superannuation Shri S. P. Sharma, Under Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2012.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 4th December 2012

No. A-12022/2/2011-E.I—The President is pleased to appoint Shri Ishtiyaque Ahmed, IRS (IT : 1992), as Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry for a period of five years with effect from the forenoon of 4th December, 2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 5th December 2012

No. A-22012/1/2012-E.I—Consequent upon inclusion of their names in the panel of Principal Private Secretary (PPS) grade of the Central Secretariat Stenographers Service for the Select List Year 2011, in terms of Department of Personnel and Training OM No. 3/4/2012-CS-II (A) dated 16.11.2012, the President is pleased to appoint the following regular Stenographers Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of the Central Secretariat Stenographers Service cadre as Principal Private Secretary in the cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the Scale of Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-, on regular basis, with effect from 16.11.2012. :—

Sl. No.	Name	Sl. No. in DoPT list
1.	Sh. D. K. Sharma	7
2.	Ms. Machiraju Sarada	38

L. K. SHARMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

##### (DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi-110001, the 5th November 2012

No. A-23011/17/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Smt. Rita Manchanda (CSL No. 938) as Private

Secretary of CSSS for the Select List Year 2010 (Part) on regular basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 28-09-2012 (AN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A), dated 17.07.2012.

2. She is posted in the Department of Pharmaceuticals against existing vacancy.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

No. A-23011/17/2012-HR-II—The President is pleased to appoint Shri Satish Chander (CSL No. 837) as Private Secretary of CSSS for the Select List Year 2010 (Part) on regular basis in the Pay Band (PB-2) Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the combined cadre of the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 28-09-2012 (AN), in pursuance of Department of Personnel and Training (DoPT)'s O.M. No. 4/2/2012-CS.II (A), dated 17.07.2012.

2. He is posted in Fertilizer Industry Coordination Committee (FICC) against existing vacancy.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

The 30th November 2012

No. A-19011/12/2007-HR-II—The President is pleased to extend the central deputation tenure of Shri S. K. Sinha, IFS (JK : 93) as Director in the Department of Fertilizers, Ministry of Chemical & Fertilizers for a period of three months beyond 04.11.2012 and up to 04.02.2013 in pursuance of DoPT's Office Memorandum No. 9/20/2007-EO (MM-I) dated 07.11.2012.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS)

New Delhi, the 22nd November 2012

No. A-19011/6/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Kailash Pati (IES-81) as Economic Advisor, in the Department of Pharmaceuticals in the PB-4 (Rs. 37,400—67,000/-) + G. P. Rs. 10,000/- w.e.f. 14.11.2012 (A/N).

S. R. MEENA, Under Secy.

The 29th November 2012

No. A-32011/2/2010-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2010 of Grade I of Central Secretariat Service vide DoPT O.M. No. 5/11/2011-CS.I (V) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Anil Jain, an Under Secretary (Ad hoc) of Central Secretariat Services (CSS) to the Post of Under Secretary (Grade-I) on Regular basis in the Department of Pharmaceuticals in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + G. P. Rs. 6,600/- w.e.f. 1.7.2010 (F/N).

S. R. MEENA, Under Secy.

No. A-32011/2/2010-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2009 of Grade I of Central Secretariat Service vide DoPT O.M. No. 5/11/2011-CS.I (V) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Sah, an Under Secretary (Ad hoc) of Central Secretariat Services (CSS) to the Post of Under Secretary (Grade-I) on Regular basis in the Department of Pharmaceuticals in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + G. P. Rs. 6,600/- w.e.f. 4.6.2010 (F/N).

2. The regular appointment of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 611/2012-titled "P. S. Bhandari & ors. vs. UoI & ors." in terms of CAT, PB New Delhi's interim order dated 24.2.2012 and any other order by any competent court in any of the connected matters.

S. R. MEENA, Under Secy.

No. A-32011/2/2010-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2009 of Grade I of Central Secretariat Service vide DoPT O.M. No. 5/11/2011-CS.I (V) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Alok Kumar Karn, an Under Secretary (Ad hoc) of Central Secretariat Services (CSS) to the Post of Under Secretary (Grade-I) on Regular basis in the Department of Pharmaceuticals in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + G. P. Rs. 6,600/- w.e.f. 31.05.2010 (F/N).

2. The regular appointment of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 611/2012-titled "P. S. Bhandari & ors. Vs. UoI & ors." in terms of CAT, PB New Delhi's interim order dated 24.2.2012 and any other order by any competent court in any of the connected matters.

S. R. MEENA, Under Secy.

No. A-32011/2/2010-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List for the year 2009 of Grade-I of Central Secretariat Service vide DoPT O.M. No. 5/11/2011-CS.-I (V) dated 26.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Sita Ram Meena, an Under Secretary (Ad hoc) of Central Secretariat Services (CSS) to the post of Under Secretary (Grade-I) on Regular basis in the Department of Pharmaceuticals in the PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + G.P. Rs. 6,600/- w.e.f. 14.06.2010 (F/N).

2. The regular appointment of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & ors. Vs. UoI & Ors." in terms of CAT, PB New Delhi's interim order dated 24.02.2012 and any other order by any competent court in any of the connected matters.

S. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 4th December 2012

No. A-12031/01/2009-Estt.—The President is pleased to extend the tenure of Ms. Neena Singh Pandey, IRS (IT : 88)

as Chief Vigilance Officer in the Khadi and Village Industries Commission, Mumbai for a period of two years beyond 21.06.2012 i.e. upto 21.06.2014 or until further orders, whichever is earlier.

L. HAKIP, Deputy Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC  
DISTRIBUTION)

New Delhi, the 23rd November 2012

No. A-38014/15/2012-E.-I—Shri S. Jankiraman, Deputy Secretary belonging to the Central Secretariat Services (CSS) of the Department of Food & Public Distribution will retire from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th November, 2012.

ARUN KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPTT. OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi-110108, the 10th October 2012

No. A-32014/03/2012-Estt.-I—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Section Officer of CSS in the Ministry of Health & Family Welfare on ad-hoc basis with effect from the dates shown against each:-

(i)	Ms. Shashi Kararia	18.09.2012
(ii)	Shri Deepak Kumar Mishra	17.09.2012
(iii)	Shri Sanjay Kumar Mishra	17.09.2012
(iv)	Shri B. S. Bisht	01.10.2012
(v)	Shri Sumit Kumar Sachan	17.09.2012
(vi)	Shri S. Bandyopadhyay	18.09.2012
(vii)	Shri J. P. Ojha	17.09.2012
(viii)	Shri M. K. Tewari	01.10.2012
(ix)	Ms. Neelam Bhatia	17.09.2012
(x)	Shri Krishan Pal	01.10.2012
(xi)	Shri R. R. Sriprakash	01.10.2012
(xii)	Shri Kulwant Rai	01.10.2012
(xiii)	Shri G. L. Madan	17.09.2012
(xiv)	Ms. A. Vasanthakumari	18.09.2012
(xv)	Shri Dhan Singh	18.09.2012
(xvi)	Shri D. P. Shukla	17.09.2012
(xvii)	Ms. Latha Raman	17.09.2012

(xviii)	Shri Ashok Kr. Sinha	17.09.2012
(xix)	Shri K. R. Sinha	17.09.2012
(xx)	Shri O. P. Baswala	17.09.2012

2. the appointment of the above officers are subject to the conditions mentioned in the DoPT's Office Memorandum No. 6/11/2012-CS-I(S), dated 23.08.2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 12th November 2012

No. A-32014/03/2012-Estt.-I—The President is pleased to appoint Shri Bharat Bhushan, Assistant of Ministry, as Section Officer of CSS on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 01.11.2012.

2. The ad-hoc appointment of Shri Bharat Bhushan is subject to the conditions mentioned in Department of Personnel & Training's Office Memorandum No. 6/11/2012-CS-I(S), dated 23.08.2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 16th November 2012

No. A-32013/02/11-Estt.-I—Consequent upon their promotion to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS-I(U) dated 30th October, 2012, following Section Officers of CSS are hereby appointed to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis for the period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Date of promotion as US (ad-hoc)
1.	Ms. Soma Sanyal, (CSL No. 7213)	w.e.f. 07.11.2012(FN)
2.	Sh. Thomas Mathew (CSL No. 7402)	w.e.f. 07.11.2012(FN)
3.	Sh. Chatter Pal (CSL No. 7510)	w.e.f. 14.11.2012(FN)

2. The ad-hoc promotion of the officers is subject to Court Case/various other terms & Conditions, stipulated in the DoPT's Order, referred above.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 21st November 2012

No. A-32013/02/2011-Estt.-I—Consequent upon his promotion to Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS-I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint Shri Prem Narain, Section Officer in the Directorate General of Central Public Works Department, M/o Urban Development, as Under Secretary in the Department of Health

& FW, purely on ad-hoc basis with effect from the afternoon of 20.11.2012 and until further orders.

The ad-hoc promotion is subject to the conditions mentioned in the Department of Personnel & Training's above referred Order of 30th October, 2012.

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. A-19014/04/2005-Estt.-I—Consequent upon her promotion of the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12th November, 2012 Smt. Nirmala K. Kutty, Grade-I (Under Secretary) of CSS is hereby appointed to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 12 November, 2012, in the Department of Health & Family Welfare by personal upgradation of the post of Under Secretary currently held by her, upto the date of her superannuation.

2. The ad-hoc appointment of the officer is subject to the various Court Cases/terms & conditions stipulated against point 2 of DoPT's order dated 12th November, 2012, as referred above.

ANIL KUMAR, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF AYUSH

New Delhi-110023, the 3rd December 2012

No. A-22010/04/2012-Estt.-II/AYUSH—Consequent upon his promotion to the Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training's Communication No. 5/9/2012-CS-I(U) dated 30.10.2012, Shri Anjan Biswas is appointed as Under Secretary in Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha & Sowa Ripga and Homoeopathy (AYUSH), Ministry of Health and Family Welfare with effect from 20th November, 2012 (AN).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 10th December 2012

No. A-38012/01/2012-Admn.-I—Dr. Bindu Kumar Tiwari, Adviser (Nutrition) of this Directorate General of Health Services has retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.10.2012.

PREM PARKASH, Dy. Dir. (Admn.)

#### MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 4th December 2012

No. 6-17/93-FP/INM—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Dr. R. N. Bisoyi, Regional Director,

National Centre of Organic Farming, Ghaziabad, a subordinate office under Department of Agriculture & Cooperation retired from Government Service with effect from the afternoon of 30.09.2012.

BHERAV DUTT, Under Secy.

New Delhi, the 11th December 2012

No. 4-4/2008-Extn.—With the approval of the competent authority, Shri P. Majumdar, Assistant Director, Regional Centre of Organic Farming, Nagpur, holding the post of Joint Director (Extn.), G. C. S., Group-A Gazetted in the PB-3 [Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (GP)] in the Directorate of Extension, Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis is relieved of his duties in the Directorate w.e.f. the afternoon of 2nd November, 2012.

R. S. VERMA, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES

New Delhi, the 10th December 2012

No. 2-26/2011-Fy(Admn)(i)—The President is pleased to promote Dr. S. K. Naik, Senior Fisheries Scientist to the post of Zonal Director (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries w.e.f. 30.5.2012 (F.N.).

SUDEEPA KOHLI Under Secy.

No. 2-26/2011-Fy(Admn)(ii)—The President is pleased to promote Shri D. K. Gulati, Senior Fisheries Scientist to the post of Zonal Director (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of India, Mumbai in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- under the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries w.e.f. 02.8.2012 (F.N.).

SUDEEPA KOHLI Under Secy.

#### MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st November 2012

No. 5-17/2012-Admn.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. A-32013/02/2010-E.I. dated 05.10.2012, the President is pleased to appoint Shri V. K. Gupta as Statistical Adviser in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with Grade Pay of

Rs. 10,000/- in the Ministry of Women and Child Development, with effect from the forenoon of 22nd October, 2012.

JAI KISHORE, Under Secy.

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND ENPOWERMENT  
(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE &  
EMPOWERMENT)**

New Delhi, the 1st November 2012

No. A-12022/03/2010-Estt.II(Pt.)—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2012-CS-II(A) dated 17th July, 2012, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries (ad hoc) of CSSS cadre of this Ministry to the post of Private Secretary (Group 'B', Gazetted) of the Central Secretariat Stenographers Service cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment, on regular basis for the Select List Year-2010 with effect from the forenoon of the 17th July, 2012 :—

S. No.	Name & Designation	CSL No.	Ministry/ Department where working	Ministry/ Department where nominated
	(Sh./Smt./Ms.)			
1.	Namrata Sharma, PS (ad hoc)	151	SJ&E	SJ&E
2.	Anita Kaura, PS (ad hoc)	160	SJ&E	SJ&E
3.	Pushpa Tirthani, PS (ad hoc)	170	SJ&E (NCSC)	SJ&E (NCSC)
4.	Narender Datt, PS (ad hoc)	189	SJ&E	SJ&E
5.	Ram Rattan, PS (ad hoc)	588	SJ&E	SJ&E
6.	Sarita Arora, PS (ad hoc)	791	SJ&E	SJ&E

VEERENDRA KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 16th November 2012

No. A-12034/7/2012-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri Promod Pant, a regular PA of Ministry of Defence as Assistant Private Secretary in the Office of the Hon'ble Minister for Social Justice and Empowerment (Kumari Selja) w.e.f. 12.11.2012 (A.N.) on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 20th November 2012

No. A-32013/1/2008-Estt.I—In pursuance of the Department of Personnel and Training's Order No. 5/9/2012-

CS-I(U) dated 30th October, 2012, the President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Sharma, Section Officer of Central Secretariat Service (CSL No. 7437) in the cadre of Ministry of Social Justice & Empowerment, to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in this Ministry on ad hoc basis in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-) w.e.f. 30.10.2012 (forenoon) upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad hoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of Central Secretariat Service. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor. The ad hoc promotion of the officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 3rd December 2012

No. A-12034/8/2012-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri N. Sanker, a regular PA of Ministry of Agriculture, D/o Agriculture & Cooperation as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri P. Balram Naik) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 12.11.2012 (F/N) on co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 5th December 2012

No. A-32013/03/2007-Estt.I—Consequent upon her promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) and posting in this Ministry as Deputy Secretary on ad-hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 4/14/2011-CS-I(D) dated 12th November, 2012, the President is pleased to appoint Ms. Saroj Jaisia, a substantive Grade-I (Under Secretary) officer of CSS to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the Ministry of Social Justice & Empowerment, w.e.f. 23.11.2012 (AN).

2. The above promotion of the officer is subject to the final outcome of Writ Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs. Garima Singh & Ors.) W.P. No. 4616/2011 (V.S. Pandey & Ors. Vs. Garima Singh & Ors.), W.P. No. 7619/2011 (UPSC Vs. Garima Singh & Ors.), W.P. No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors) and other connected Writ Petitions Nos W.P. (C) No. 2523/2012 (Union of India Vs. Ananat Kishore Saran) W.P. (C) No. 2524/2012 (Union of

India Vs. Shersha and Anr), W.P.(C) No. 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Ekram Rizvi and Anr) W.P.(C) No. 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W.P.(C) No. 2527/2012 (Union of India Vs Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High Court of Delhi and the SLP(C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors Vs. Union of India & Ors) in the Supreme Court and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 6th December 2012

No. A-32013/1/2008-Estt.I—In pursuance of the Department of Personnel and Training's Order No. 5/9/2012-CS-I(U) dated 30th October, 2012, the President is pleased to appoint Shri Sunil Kumar Mehto, Section Officer of the cadre of Department of Commerce (CSL No. 7284) and posted in the Ministry of Textiles, to the Grade-I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in this Ministry on ad hoc basis in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/-) w.e.f. 27.11.2012 (forenoon) upto 31.05.2013 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad hoc promotion shall not confer on the officer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of Central Secretariat Service. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor. The ad hoc promotion of the officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

No. A-19011/10/2010-Estt.I—Consequent on attaining the age of superannuation, Shir R. Krishnamurthy, Deputy Secretary, in the Ministry of Social Justice & Empowerment has retired from Government Service w.e.f the afternoon of 30th November, 2012.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

#### MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th November 2012

No. 19011/18/2012-Estt.—In pursuance to DoP&T's Order No. 4/14/2012-CS-I(D) dated 12.11.2012 and the subsequent relieving made by the Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research & Education vide Office order No. A-19014/56/2005-Estt. dated 22.11.2012, the President is pleased to appoint Shri Roopak Chaudhuri to the post of

Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs on ad hoc basis with effect from the forenoon of the 23.11.2012.

K. CHANDRA SEKAR, Under Secy.

#### MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 5th December 2012

No. A-53011/8/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Singh Rawat, a regular Assistant in Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Ltd. (TRIFED) as Additional Private Secretary to Minister of Minority Affairs, Government of India w.e.f 30th November, 2012. His pay and allowances will be fixed as per the relevant rules.

2. The appointment of Shri Sudhir Singh Rawat, Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of Minority Affairs is on co-terminus basis with the tenure of the Minister of Minority Affairs or until further orders, whichever is earlier.

3. This issues with the approval of Minister of State for Minority Affairs.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 23rd November 2012

No. A-32013/4/2010-Admn. I—The President is pleased to appoint the following regular Section Officers of CSS Cadre as Grade-I (Under Secretary) of CSS on ad hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders whichever is earlier, in Department of Telecommunications, Ministry of communication & Information Technology in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in terms of Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012 w.e.f. the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer (SOs)	CSL No.	Appointed as Grade-I (US) of CSS on ad hoc basis in DOT with effect from
1	2	3	4
	(S/Shri)		
1.	U. Lakra	7992	30.10.2012 (FN)
2.	J. P. Gautam	7422	30.10.2012 (FN)
3.	Rakesh Kumar	7338	30.10.202 (FN)
4.	Nithali Ram	7256	06.11.2012 (AN)
5.	Ek. Dass	7525	08.11.2012 (FN)
6.	Anil Kumar Singh	7404	09.11.2012 (FN)

2. The appointment of the officers, as above, is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- (ii) Ad hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The appointment on ad hoc basis will take effect from the date of assuming the charge of the post of Under Secretary in the Ministry/Department to which the officer has been allocated.
- (iv) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (v) The Officers, who have not undergone mandatory level 'D' Training as enjoined in cadre training plan for the CSS, will have to undergo the aforesaid training as per nominations made by DoP&T.
- (vi) The ad hoc promotion of Officers shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

VIMAL, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

##### NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 23rd November 2012

No. 6169/NIC/2012-Adm-II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Ramananda Nongmeikapam (Emp. Code No. 6169), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Tawang District Centre, Arunachal Pradesh, with effect from the afternoon of 18th October, 2012 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

No. A-39013/1/2012-Adm-II—The Director General, NIC is pleased to accept the resignation of Sh. Sankara Rao Koppala, (Emp. Code No. 6735), from the post of Scientific Officer/Engineer Gr. 'SB', National Informatics Centre—Gujarat State Centre, Gandhinagar, with effect from the afternoon of 01.10.2012 and he is relieved of his duties from the same day.

SUBHASH DUTTA, Dy. Dir. (Adm.-II)

#### MINISTRY OF RAILWAYS

##### (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th November 2012

No. E(GP)/2011/3/2—The President is pleased to appoint the undermentioned 100 Group 'B' Officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways belonging to the Railways as mentioned against each, to Group 'A' Junior Scale of Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) with effect from 10.07.2012 :—

##### PANEL FOR 2010-2011

Sl. No.	Name	Railway
1	2	3
	S/Shri	
1.	R. Parthasarathy	SR
2.	K. Sen Laskar	NFR
3.	S. N. Paul	SER
4.	A. K. Mitra	CLW
5.	Vinod Kumar Singh	CR
6.	Dinesh Kumar Jain	WCR
7.	D. Balaji	S C R
8.	Satyajit Kundu	E R
9.	S. Vijay Kumar	S R
10.	S. R. Bag	E R
11.	Manas Das	E R
12.	Sukhendu Kumar Sarkar	E R
13.	Asit Kumar Manna	E R
14.	U. Shankar	S R
15.	Tiku Ram Chaudhary	NWR
16.	Subhasish Nag	WR
17.	Deepak K. Gupta	NWR
18.	K. S. Chauhan	WR
19.	N. Venkateswara Rao	SCR
20.	N. Manohara Rao	SCR
21.	K. W. Nachappa	RWF
22.	R. K. Srivastava	E R
23.	S. Lakshmanaswamy	IC F
24.	S. V. Raghavan	RDSO
25.	S. K. N. Singh	E R

1	2	3	PANEL FOR 2011-2012		
1	2	3	1	2	3
26.	Sarjan Thakur	E R	1.	A. K. Pathak	WCR
27.	Ganesh Pandey	E R	2.	Ram Naresh Garg	NWR
28.	S. N. Das Gupta	E R	3.	Lalan Tiwari	E R
29.	S. N. Das	E R	4.	V. Nagarajan	S R
30.	Arpan Kumar	N R	5.	K. Durai Raj	S R
31.	M. K. Goel	N R	6.	M. K. Chatterjee	CLW
32.	Ram Sagar Ram (SC)	N E R (Promoted against SC vacancy)	7.	Manmeet Singh	CLW
33.	S. Halder (SC)	S E R (Promoted against SC vacancy)	8.	S. Mandal	SER
34.	Kishan Singh (SC)	C R (Promoted against SC vacancy)	9.	B. S. Siva Prasad	SCR
35.	B. L. Batho (SC)	C R (Promoted against SC vacancy)	10.	V. Venkataramana	SCR
36.	A. J. Gaikwad (SC)	C R (Promoted against SC vacancy)	11.	Ch. Krishna Prasad	SCR
37.	P. R. Lamba (SC)	N R (Promoted against SC vacancy)	12.	R. B. Solanki	C R
38.	B. K. Kishku (ST)	S E C R (Promoted against ST vacancy)	13.	P. K. Saxena	C R
39.	Dilip Kumar Kujur (ST)	ER (Promoted against ST vacancy)	14.	A. K. Singh (SC)	DLW
40.	K. R. Meena (ST)	NR (Promoted against ST vacancy)	15.	Ujjal Saha	E R
41.	K. Bhagat (ST)	SECR (Promoted against ST vacancy)	16.	C. Ram (SC)	N R
42.	Md. Haseen	DLW	17.	Sheo Prasad (SC)	N R
43.	S. C. Roy	N F R	18.	S. K. Jain	N R
44.	V. M. Firakkar	C R	19.	Ramesh Chander (SC)	N R
45.	M. P. Khobrgade	C R	20.	Idris Khan	N R
46.	P. Senthil Velan	S R	21.	Kuntal Ghosh	E R
47.	R. Subba Rao	S R	22.	Arunava Roy	E R
			23.	Virender Singh (SC)	R C F
			24.	Viswambhar Nath	E R
			25.	Goutam Roy	E R
			26.	S. Rangarajan	SR
			27.	M. Prabhakaran (SC)	SR
			28.	P. Dutta	C L W
			29.	A. K. Mitra	S E C R
			30.	R. K. Dongre (SC)	S E C R
			31.	Utpal Dey	S E C R
			32.	Abdul Mannan	S E C R
			33.	Adaram Suresh	S E C R
			34.	Y. Venkateswara Rao	S C R
			35.	A. K. Pradhan	S E C R



1	2	3
36.	R. Nageswara Rao	S C R
37.	Harcharan Singh (SC)	DMW (Promoted against SC vacancy)
38.	Yogendra K. Vimal (SC)	WC R (Promoted against SC vacancy)
39.	Madan (SC)	DLW (Promoted against SC vacancy)
40.	D. Nankuram (SC)	S E C R (Promoted against SC vacancy)
41.	A. K. Roy (SC)	E C R (Promoted against SC vacancy)
42.	Satish H. Borkar (SC)	RWF (Promoted against SC vacancy)
43.	Babul Barman (SC)	S E R (Promoted against SC vacancy)
44.	D. Saundarajan (SC)	SWR (Promoted against SC vacancy)
45.	C. S. Shyam (ST)	RDSO (Promoted against ST vacancy)
46.	M. D. Banarkar (ST)	C R (Promoted against ST vacancy)
47.	R. R. Lazarus (ST)	DLW (Promoted against ST vacancy)
48.	K. Nanuda (ST)	S C R (Promoted against ST vacancy)
49.	S. N. Sahoo	E CoR
50.	M. S. N. Murty	E CoR
51.	L. Yogeswara Rao	E CoR
52.	Azeemudin	S C R
53.	Kamalnath Choudhari	C R

2. The appointment of the above officers is, however, subject to the final outcome of OA No. 822/2012 in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Allahabad filed by Shri B. K. Mishra.

R. C. JAT, Secy.  
(Railway Board)

The 5th December 2012

No. E(O)III/2012/RN/38—Consequent upon his permanent absorption in DFCCIL, Shri Bharat Salhotra, a Senior Administrative Grade Officer of the Indian Railway Accounts Service (DoB : 13.05.1961, DITS : 22.12.1986) has resigned from Railway Service with effect from 17.09.2012.

R. C. JAT, Secy.  
(Railway Board)

#### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 5th November 2012

No. A-32014/02/2012/E.I—In pursuance of DoP&T O.M. No. 06/11/2012-CS.I(S) dated 23.08.2012, the President is pleased to appoint the following regular Assistant (CSS) as Section Officer (CSS) in the PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Road Transport & Highways on ad hoc basis with effect from 05.11.2012 (FN) & up to 31.12.2012 or till regular candidates become available whichever is earlier :—

Sl. No.	Sl. No. in CSL 2003	SQ/DR (Rank)	Name	DoB	Category
1.	54	SQ	Smt. Indira Sharma	18.12.1956	Gen
2.	55	DR/94	Shri Sandeep Kumar	02.08.1977	Gen
3.	113	SQ	Shri P. K. Avasthi	20.12.1956	Gen
4.	129	SQ	Smt. Suman Bhatnagar	26.05.1955	Gen

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer grade of CSS.

H. R. MEENA, Under Secy.

The 16th November 2012

No. A-12025/1/2010-E.I—In pursuance of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's Order No. 5/9/2012-CS.I(U) dated 30.10.2012, the President is pleased to appoint the following regular Section Officer of CSS as Under Secretaries (Grade-I of CSS) in the Ministry of Road Transport & Highways in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on ad hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the post are filled up on regular basis or untill further orders, whichever is the earliest, from the dates mentioned against their names below :—

Sl. No.	Name & CSL No.	
1.	Shri Ashok Prasad (CSL No. 7457)	30.10.2012 (FN.)
2.	Shri Manish Kumar Singh (CSL No. 7465)	30.10.2012 (FN.)

2. Their appointment as Under Secretaries on ad hoc basis is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS.
- (ii) The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.
- (iii) The service rendered on ad hoc basis in the Under Secretary grade would not count for the purpose of seniority in that grade or for promotion to the next higher grade.
- (iv) The officers who have not undergone mandatory Level 'D' Training as enjoined in Cadre Training Plan for the CSS, will have to undergo the afore-said training as per nominations made by Department of Personnel & Training.
- (v) The ad hoc promotion shall be subject to the final outcome in the OA No. 1083/2007 pending before the CAT, New Delhi and also any other order by any competent court in any of the connected matters apart from the OA No. 1083/2007.

H. R. MEENA, Under Secy.

No. A-12033/1/2010/E.I.—Consequent upon his empanelment for holding the post of Joint Secretary or equivalent under the Central Staffing Scheme and his posting as Joint Secretary (in-situ) in SAG grade in the Ministry of Road Transport & Highways, vide Department of Personnel & Training's Office Order No. 21/1/2012-CS.I(D) dated 29.10.2012, the President is pleased to appoint the Dr. A. R. Goyal, Director, a Senior Selection Grade Officer of CSS, presently working as Director in the Ministry of Road Transport & Highways as Joint Secretary (in-situ) in Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay in the Ministry of Road Transport & Highways w.e.f. 29.10.2012 (F.N.).

H. R. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 4th December 2012

No. A-38013/05/2012/E.I.—Smt. Indira Devi Kutty, an officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on attaining the age of superannuation with effect from 30.11.2012 (AN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 4th December 2012

No. 22/2012. (F. No. 12/03/2012-Adm.II)—On attaining the age of superannuation, Shri Sisir Das, Director, Ministry of Power, retired from Government Service on the afternoon of the 30th November, 2012.

P. P. BOSE, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 27th November 2012

No. 7/1/2010-CGWB—The President is pleased to appoint Shri Sanjiv Kudesia, Assistant Hydrogeologist as Scientist-B (Junior Hydrogeologist) in PB-3 of Rs. 15,600-39,100 + Grade Pay of Rs. 5,400/- in Central Ground Water Board with effect from 05.09.2012.

VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

---

#### MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 30th November 2012

No. A-24012/2/2011-SS-I)—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Chandra Mishra, IAS (MT : 78), Central provident Fund Commissioner, Employees Provident Fund Organization stands retired from Government Service with effect from 30.11.2012 (AN)

NARESH JAISWAL, Under Secy. (Admn.)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012